#### PLAYING TONIGHT

English Premier League Arsenal vs Leicester City (7.30pm), Brentford vs Man Utd (10pm) Live on Star Sports Network

### **Cricket chases the American dream**

With a new league, new stadiums and big investment, the game is again trying to crack the vast US market

ABHISHEK PUROHIT

MUMBAL AUGUST12

NMARCH this year, the owners of Major League Cricket (MLC) announced plans to invest around \$10 million (approx. Rs 875 core) to build and renovate States of America. In May, Microsoft (ED Saya) Madella was announced as lead investorin a \$44 million fundraise by MLC, with another \$76 million pledged, primarily for cricket in-frastructure upgrades across the country. The Knight Riders group is among the early stakeholders in the six-team MLC, planned to begin next year.

in the six-team MLC, planned to begin next year. The International Cricket Council has been invited to sub-mit a proposal this month for cricket to be considered for the 2028 Los Angeles Olympics, the fi-nal decision on which is expected nal decision on which is expected next year at the International Olympic Committee's session in Mumbai. Also, the 2024 T20 World Cup will be co-hosted by the USA and the West Indies. Cricket has made sporadic at-tempts to crack the US sports market, but it is only now, with the backing of this pames and his

the backing of big names and big money, that the chase appears to

money, that the chase appears to have gained pace. With the proposed new, ren-orated as well as repurposed sta-diums, a significant increase in turf pitches, a 26-team Minor League aimed to increase grass-roots participation, and attempts to unce the average American to woo the average American, cricket hopes to finally make it

in the land of its bat-and-ball

The main challenge remains The main challenge remains daunting - the game still isn't much of a draw in the USA, beyond the South Asian and other cricket-connected diaspora.

"The US ranks number two in digital consumption of cricket content, after India, There's a business of the content, after India, There's a business of the content, after India, There's a business of the content of the India in the Ind

orgital consumption of cricket content, after finds. There's a huge market, maybe made up primarily of the diaspora to start with. The best way to o destrain with the best way to o destrain which was the unimer one media market in the world combined with the second-most watched sport... in the medium to long term, we must get the average American sports fain interested in T20 cricket or cricket in general, "Knight Riders EED Venly Mysore had told Livenimit. Tom Dunnore, vice-president (marketing) at MLC, says, "The South Asian expar cricket fanisheobylous No. I target but we know that in the long-term we know that in the long-term we know that in the long-term of the start with the source of the start was the same than the long-term of the same than the same than the long-term of the same than the same than the long-term of the same than the same than the long-term of the same than the same than the same than the long-term of the same than the same than

fan is the obvious No. I target but we know that in the long-term holistic view of the game here not still view of the game here we need to develop new audiences and engage new fans into the sport.

"There is still some perception here that cricket is outdated. The biggest barrier is that many people just do not understand the fundamentals of the game."

#### Information and buzz

From setting up explainer kiosks at grounds to tapping so-cial-media influencers, cricket is trying to get the message across that it is not some stuck-up, quaint British pastime, but something that is good enough



A baseball ground is being repurposed into a cricket facility after MLC acquired a long-term lease.

to compete for eyeballs with popular American sports, "At the Minor League finals in Morrisville, North Carolina, we were able to draw a crowd of new fans. We got it out to the media that this is a fun event, media that this is a fun event, cricket is maybe not what you think it is, it is fast-paced and athletic, T20 cricket is shorter than a baseball match, come and experience it," Dunmore told The Indian Express.

"Young Americans are starting to follow internal account of the Indian Express."

Young Americans are start-ing to follow international sport more, whether it is soccer, rugby or F1, and cricket fits into this di-versity as the second-most pop-ular sport in the world. We are starting to see those audiences engage with the game.
"It is also about educating

people about the sport. We have our Cricket 101 explainer zones

at some Minor League matches where fans can get information about how the game is played and the terminology." This battle for attention will

This battle for attention will not be won overnight, but cricket does enjoy more visibility on video platforms today than it did a couple of decades ago, and that is a boost. "If we can get past some of the barriers such as terminology and get people excited about the sport, the stars, the action that get the second the second the second the second that second the tion, the storylines, we will see some success with new audi-ences," says Dunmore.

### Build and ungrade

There is still only one ICC-ap-proved international venue in the USA, in Miami, where India recently played a couple of T20Is against West Indies. MLC, under a strategic partnership agree-

...It is only now, with the backing of big names and big money, that the chase appears to have gained pace

ment with USA Cricket, the ment with USA Cricket, the game's governing body in the country, proposes to build new ones in the greater Los Angeles, San Francisco and Seattle metro-politan areas. The existing grounds in Morrisville and Houston will get added facilities and capacity, but the ground that he had been appropriated as the

and capacity, but the ground that's been envisinged as the 'Mortes' been sometiment of the 'Mortes' been sometiment of the 'Mortes' been sometiment of the 'Mortes' being repurposed into a cricket facility after MLC acquired a long-term lease. It was home to the Fizex Airflegs, a minor league team that folded during the Covid pandemic. "The flagship stadium in Grand Paria' well be ready by next year. It is the first time a baseball venue is being converted into a cricket venue. That will certainly be a finantic round.

verted into a cricket venue. That will certainly be a fantastic option to host World Cup matches. We will also have the upgrading in North Carolina and Houston and then, of course, the existing venue in Florida which has already hosted high-level international cricket.

"Those four are certainly good options and whether we can get any other venue ready in

time for 2024 remains to be seen. It is certainly a tight time-line," says Dunmore on the ven-ues that are likely to host T20

ues that are likely to host T20 World Cup game, "Construction takes time, especially when you are working with local governments on the land and development. In both San Jose, which is just south of San Francisco, and Orange County in the Greater Los Angeles area, we have agreements in place to finalise development plans with the local government entities."

#### Pitching it right

Pitching it right
Apart from fan engagement
and stadium facilities, a basierequirement for cricket - the pitch
- is another challenge. Natural
turf surfaces are not just difficult
to lay and prepare, maintaining
them across seasons can be a
nightmare, given that experienced curators are hard to come
across in the USA, MLC is going
for hybrid pitches instead, under
an arrangement with an
Australian company. These are a
combination of natural soil and
synthetic grass, allowing for low
upkeep but also maintaining
near-usual variation in how the
ball behaves after pitching.

near-usual variation in how the ball behaves after pitching. Hybrids are proposed to be installed at 20 venues this year across the Bay Area, New Jersey, Chicago, New York City, St Duis, Michigan, Seattle, Philadelphia, Dallas, Orlando, Ohio, Boston and Atlanta. After several false starts this century, cricket seems better prepared to chase the American dream.

MANAGEMENT Sugar too sweet for you? Scan to read The 'nuts' and holts of diabete Say Cheese! Or Paneer & Tofu The forbidden fruit Top tip: Keep walking ⊚∷⊹⁰

HAPPIEST HEALTH

#### Unhappy WFI to review wrestlers' show at CWG

THE NATIONAL Rederation is not pleased that four indian women wrestlers could not take advantage of a weak fleid at the recently-concluded Commonwealth Games and missed out on gold medals. All 2 I Glindian wrestlers wom medals at the Cames, returning with six spid, a silver and five broaze. From among women, only Vinesh Phoga at no Slaskin Malik won gold while Anshu Malik, who was also agold medal favourire, returned with silver in 57kg category. THE NATIONAL federation is not

57kg category.

"It was not a great show by our women wrestlers. If you are not winning such a weak field, what it reflects on your performance," said a WFI official. "We are going to sit with the wrestlers and review the performance." Veer placed third

Veer placed third
India's Veer Ahlawar continued his love affair with
Singapore as he shot a superb 7.
under 65 to jump to third place
at the hanagural USD 15 million
International Series Singapore
here on Friday, Ahlawar, 26, finished a career-best T-5 at the
Singapore Open in jamuary, a
week after missing the cut at the
Singapore International at
Tampines, Tanah Meral, which
is hosting the current event.

Durand Cup set to begin

Defending champions FC Goa will face Mohammedan Sporting in the opening match of the Durand Cup football tour-nament at the Salt Lake Stadium here on Tuesday. The two sides will clash in a Group B game in what will be a repeat of last edition's final. Twenty teams are taking part in the tournament.

### Sad to see players retire for T20 leagues: Capitals co-owner Jindal

PARTH JINDAI, the co-owner of IPL heapyweighs Delhi Capitals, has said the 'cricket lover' within him doesn't relably like the direction cricket has taken, vis-à-vis players retiring from international sport prematurely to play T20 leagues. However, as a team owner, he is cognizant of the business side of the game as well. Speaking to The Indian Express, Jindai, the director of JSW Sports, said: "It really find that extremely upsetting, You PARTH IINDAL, the co-owner of

JSW Sports, said: "I really find that extremely upsetting, You had the West Indies coach [Phil Simmons] saying," I can't make players to play for the West Indies anymore. It's really said. I don't know, I'm not very happy to see this happening."

He added: "Because the IPL is two-and-a-half months long, it is very difficult to maintain the engagement with our fans and sponsors. So when we had an opportunity to buy a team in the South African League, and then our partners bought a team in South African League, and then our partners bought a team in the UAE lead, we felt that this was an opportunity to keep the brand alive and relevant for a longer period of time."

Jindal was talking in the cortext of the precarious position international cricket finds itself in. With franchise T2O cricket becoming more powerful and takenoning more powerful and t

international cricket finds itself in With franchise T20 crickets becoming more powerful and taking up bigger space in the annual calendar, through leagues across the world, and the fact that some of the top cricketers are turning into T20 mercenaries by taking early international retirement, putting into doubt the future of ODI and Test cricket. Delhi Capitals is one of the teams leading the expansion of cricket's global footprint, with the group adding bubaic apitals and Pretoria Capitals is one of the teams leading the expansion of cricket's global footprint, with the group adding bubaic apitals and Pretoria Capitals is one of the teams leading the expansion of cricket's global footprint, with the group adding bubaic apitals and Pretoria Capitals is on the Neigigi Ridders, for instance, have teams in the 720 leagues of the Caribbean, the UAE, South Africa and also the top coming to the caribbean, the UAE, South Capitals and the caribbean consideration of the elegans to the sudden mush counting of 'IPI-service' Leagues across sonts' in

sudden mushrooming of 'IPL-style' leagues across sports in India. Ghouse, a former Davis Cupper, was slightly apprehen-



sive about the success of each and pointed out two critical factors that could determine the dire

that could determine the direction cricket alse in the coming years: the sport's ability to gate-crash a mature US sporting maneket and the potential inclusion in the Olympics at IA 2028.

"I think the Olympic piece is important." Chouse said. "I cricket does make it into the Olympics, that will globalise the sport in a much, much bigger manner. And yes, the US plays a big piece in all off this because their ability to commercialise and moneties sport is second to none."

#### Next target, swimming

For Jindal, cricket is just one part of the investment, albeit the most significant given lit's also the most profitable. His group spends approximately Rs 50-65 crore per year across sports, Jindal says, and has seen returns, in terms of shelters the support interms of athletes they support winning medals, in sports such as wrestling, boxing, judo and the erecent track-and-field success at the Commonwealth Games, where athletes like high jumper Fejaswin Shankar, steepler-kneer Avinash Sable and long jumper Murall Sreeslankar were all backed by the group. Jindal, 32, said their next frontier is swimming, with the programme under South African coach histhede Warley – also the CEO of Insipie Institute of Sports – targeting the 2026 CVG and the LAOlympic Supports of the CO of Insipie Institute of Sports – targeting the 2026 CVG and the LAOlympic Supports of the CO of Insipie Institute of Sports – targeting the 2026 CVG and the LAOlympic Supports of the Control of the Control of the Control of the Control of the CO of Insipie Institute of Sports – targeting the 2026 CVG and the LAOlympic Supports – the Control of the Contr in terms of athletes they support

the LA Olympics. But funding the Olympic stars But funding the Olympic stars hasn't always been smooth sailing, with the federations, in particular, expressing apprehension over the involvement of private bodies in running sports. This came to the fore after the Tokyo Olympics in particular, when the Wrestling Federation of India (WFI) barred its athletes from communicating directly with private players.

Vol XC-236 Regd.No. DL-21046/03-05 R.N.I. No.506/57. Printed and Published by R.C.Malhotra on behalf of The

next frontier is swimming, with the programme under South African coach Rushdee Warley – also the CEO of Inspire Institute of Sports targeting the 2026 CWG and the LA Olympics

Jindal plays down those inci-dents and says the government, federation and private organisa-tions are now on the same page. "There's a sea of change in the "There's a sea of change in the way the gowerment, through its TOP'Scheme, as well as the federations are approaching high performance and sport in general. There will always be certain idiospurcasies but in general, the federations are more professional, consultative and open to suggestions and feedback." Jindal said. He. however, does not feel

tions and feedback, 'Jindal said.

He, however, does not feel
the same way about the way
football signerned in the country, Jindal owns one of Indal's
most successful clubs, Bergadun
FC, but has been left distillusioned with the way the sport is
run, In 2019, he had written a letter to Indian Super League chairperson Nita Ambant, requesting
a roadmap to make the league
more sustainable financially.

While he says efforts have
been made on that front and reemains bullish about the ISL's future, Jindal's is concerned about

ture, lindal is concer

mains boulist about the ist. Structure, Jinda is concerned about the current state of alfains at the Marchael Control of the C What's going on is not acceptable I hope and pray that the Supreme Court, in its wisdom, takes the right decision for Indian football."



#### HERO MOTOCORP LIMITED

Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj-Phase-II, New Delhi - 110070. | CIN NO. L35911DL1984PLC017354

|       | PARTICULARS   | (₹ in Crore) STANDALONE CONSOLIDATED |                         |                       |                  |                |                         |                |                  |  |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|--|
| S.No  |   | QUARTER ENDED                        |                         |                       | YEAR ENDED       |                |                         |                | YEAR ENDED       |  |
| 3.140 |   | JUNE 30, 2022                        | JUNE 30, 2021<br>JOITED | MARCH 31, 2022<br>AUD | MARCH 31, 2022   | JUNE 33, 2022  | JUNE 30, 2021<br>JOITED | MARCH 31, 2022 | MARCH 31, 2022   |  |
| 1     | Total income  | 8,445.53                             | 5,625,66                | 7,561.49              | 29,802,38        | 8,503.07       | 5,648,20                | 7,627,99       | 30,106,29        |  |
| 2     | Net Profit for the period before tax (before Exceptional items)   | 823.80                               | 484.35                  | 802.21                | 3,250.13         | 789.02         | 343.25                  | 785.73         | 3,058.11         |  |
| 3     | Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)  | 823.80                               | 484.35                  | 802.21                | 3,250.13         | 789.02         | 343.25                  | 785.73         | 3,058.11         |  |
| 4     | Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)   | 624.52                               | 365.44                  | 627.05                | 2,473.02         | 585.58         | 256.46                  | 620.56         | 2,329.05         |  |
| 5     | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for<br>the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) | 623.09                               | 359.91                  | 638.19                | 2,467.58         | 559.39         | 249.48                  | 646.55         | 2,328.45         |  |
| 6     | Equity Share Capital (face value Rs. 2/- per share)   | 39,96                                | 39,96                   | 39,96                 | 39.96            | 39,96          | 39,96                   | 39,96          | 39.96            |  |
| 7     | Reserves (excluding Revaluation Reserve)  |                                      |                         |                       | 15,742.96        |                |                         |                | 15,806,69        |  |
| 8     | Earnings per share on net profit after tax - face value Rs. 2/- each<br>(In Rupees)<br>a) Basic<br>b) Diuted                          | 31.25<br>31.25                       | 18.29<br>18,29          | 31.38<br>31.37        | 123.78<br>123.74 | 29.55<br>29.54 | 12.82<br>12.82          | 30.59<br>30,59 | 115.96<br>115.93 |  |

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Company's website www.heremotocorp.com and also on stock exchange websites, www.bseindia.com and www.rseindia.com
- Based on the guiding principles given in Ind AS-108 on 'Operating Segments', the Company's business activity falls within a single operating segment, namely automotive segment. Aco the disclosure requirements of Ind AS 108 are not applicable.
- The above results for the quarter ended June 30, 2022 have been reviewed and recommended by the Audit Committee meeting held on August 12, 2022 and approved by Board of Directors in their meeting held on August 12, 2022.

DR. PAWAN MUNJAL

Vol XC-256 RegXho, DL-21046/03-05 R.N. No.506/57. Printed and Published by R. C.Malhotra on behalf of The Indian Express (P) Limited and Printed at The Indian Express (P) Limited and Printed at The Indian Express (P) Limited Pass, A-8. Sector-8. Nobla-2010) and DB Corp Ltd, Danish Bhasdar Village Iban Tola, New Danupur Cantt. Shingya Road, Post Khagaul, Shahpur, Parna (Bhar) and Published at The Indian Express (P) Limited, Mezzanine Floor, Express Budding, 98-10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002. Editorial office: The Indian Express (P) Limited, Mezzanine Floor, Express Budding, 98-10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002. Phone: 0120-665150. Adversing office: The Indian Express (P) Limited, B1/B, Sector-10, Nobact-2013). Phone: 0120-6651519. Chairman of the Boart: Views Coenka, Chief Editor: Raj Kanalj Jiah, Editor: Unan Rajen Shanker, Editor (Delhi): Rakesh Sinha \*\*\*Responsible for selection of News under the RBB Act. Copyright: The Indian Express (P) Limited, All rights reserved. Reproduction in any mannee, electronic or otherwise, in whole or in part, without prior written permission is prohibited. The Indian Express) 

New De**l**hi

LOCK SAATCHLA SAATC

अधिकतम-35.5

न्यनतम- 26.9

13 अगस्त, 2022

जनसता

चीनी मांझे की चपेट में आने से 15 दिन में तीसरी मौत

# गर्दन कटने से कारोबारी की जान गई

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 12 अगस्त।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चीनी मांझे राष्ट्राव राजधाना विस्ता में भाव में 15 दिन के अंदर तीपर व्यक्ति मों जान चली गई। शुक्रवार को शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र में चींनी मांझे की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार कारोवाल की गर्दन कट गई। घायल को तुरंत ट्रामा सेंटर में भावी कराया गया, नहां चिकित्सकों उन्हें मृत घोषित कर दिया

राजध

भती कराया गया, जाई व्यिकत्सकों उन्हें मृत भौमित कर हिस्सा । भी और बच्चे बाल-हार से में उनकी पत्नी और बच्चे बाल-कुमार (35) के रूप में हुई है। यदना मुख्यार शाम को घटी थी। जानकारी के मुताबिक, विधिन कुमार जाशानी पाई, गोगांकों में परिवार के साथ एतते थे। परिवार में एली अनु और तीन बीटया है। विधिन का ग्रेड की अनु कीर तीन बीटया है। विधिन का ग्रेड की अनु कीर तीन को को को को की घर पर राखी का त्योहार मनाया। इसके बाद वर पर राजा जा (बाहर मनावा) इसका चार शाम को वह अपनी पत्नी और बच्चों को लंकर गाजियाबाद के लोनी में राखी का त्योहार मनाने के लिए जा रहे थे। शाम करीब पांच बज़े जैसे ही वह शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर पहुंचे, तो उनके गले में चीनी मांझा फंस

#### दिल्ली में लगातार हो रही घटना

नई दिल्ली 🥐



08 अगस्त को सरिता विहार से बदरपर जाते तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के सामने पलाईओवर के ऊपर एक जोमैटो की ओर से खाना घर पहुंचाने वाले खवळ की चीनी माझे की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहीं, 25 जुलाई को मौर्या एन्क्लेव थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार कारोबारी सुमित भी चीनी माझे की चपेट में आ गए जिससे उनकी गर्दन

उनकी गर्दन में जलन होने लगी तो उन्होंने हाथ लगाया। उससे उनके हाथ की उगलियां भी कट गई। किसी तरह उन्होंने

## पतंगबाजी करने वालों पर रहेगी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 12 अगस्त।

दिल्ली पुलिस ने आगामी 13-15 अगस्त के दौरान राजधानी में होने वाली पतंगवाजी को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है। साथ ही दिल्ली की जनता से इसका पालन करने और विराश का जाता है इसकी परिपट करने को कहा चीनी मांझा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मी की तैनाती होगी और अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राजधानी में पतंगीं, गुजबारी, ड्रोन या मानव युक्त या मानव रहित उड़ने वाली वस्तुओं को उस क्षेत्र तक पहुंचने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं, जहां 15 अगस्त को

मोटरसाइकिल रोकी और पत्नी व बेटी को नीचे उतारा। इसके बाद वह सड़क पर गिर गए। पत्नी तुरंत लोगों की मदद से उन्हें ट्रामा

प्रस्तात्र ने प्रभाव समारोह आयोजित किया जाएगा पुलिस ने बताया कि पतंग पकड़ने वालों, पतंग उड़ाने वालों और विडाईकारों से मंग्यत्त्रीय तर्वात्र से कहा गांगी कि यो 3 आगरत से 15 आगरत के बीच प्रतिबंधित के मंग्रे को बीच प्रकृती वरन्तु दिखने पर संबंधित कर्सियों को इसकी जानकारी हैं। अभी तक इसके बिढ़ते और उद्योद के 11 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। विशेष पुलिस जायुक्त (कानू व्यवस्था) पीर्पंद्र माठक में बताया कि यिदि कोई व्यविद्य वार्षित के प्रमुख्य का का स्वार्थ के स्वार्थ के प्रमुख्य का स्वार्थ के स्वार्थ के प्रमुख्य का स्वार्थ के स्वार्थ के प्रमुख्य का स्वार्थ के स्वार्थ कर प्रती , लाल किले पर कार्यक्रम होने तक पतंग, गुब्बारा या चीनी लालटेन उड़ाता दिखाई देता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सॅटर लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने विपिन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

## पुलिस की विशेष नजर



ज9न

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान पुरानी दिल्ली स्थित चांदनी चौक में बाजार के बीच प्रस्तुति देते कलाकार।

#### रविवार सुबह से सोमवार दोपहर तक बंद रहेंगी मेट्टो की पार्किंग

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 12 अगस्त ।

स्वतंत्रता दिवस के मीके पर सुरक्षा उपायों के महेनजर दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर रविवार सुबह से सोमवार दोपहर तक वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने

शुक्रवार को हालांकि कहा कि मेट्रो ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। डीएमआरसी के अनुसार-रूप स चलता रहगा। डाएमआरसा कं अनुसार-रवानंत्रता दिवस के अवसर पर उठ्ठाए एए पुराश्च को के महेतजर दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर रविवार 14 अगस्त, 2022 को सुबढ़ छड़ बजे से सोमवार यानी 15 अगस्त, 2022 को दीपहर से बजे तक वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

#### केंद्र 'दोस्तवादी' राजनीति करता है और हम आम की : सिसोदिया

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 12 अगस्त ।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावे पर पलटवार कर केंद्र को 'दोस्तवादी' राजनीति करने वाला और आम

आदमी पार्टी को आम लोगों की राजनीति जापमा पाटा को जाम साता का संजाता करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्मला सीतारमण ने यह दावा करके लोगों को भयभीत करने की कोशिश की कि जनता के कल्याण पर सरकारी पैसा खर्च करने से भारत् बर्बाद हो जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि वे (भाजपा) दोस्तवादी की राजनीति (दोस्तों के

कल्याण के लिए) करते हैं और हम आम कित्या के लिए) क्रिस है आर इन आन लोगों के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने केंद्र से नागरिकों के कल्याण में पैसा निवेश करने का आग्रह किया। सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि शासन के दो माडल हैं जिनमें से एक 'दोस्तवादी' माडल है और दूसरा जन

कल्याणकारी योजनाओं में निवेश करना है कारपार्थकार पाजनाजा में नियंत्र करना हो। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिसीदिया ने कहा-भाजपा के 'दौस्तवादी' माङल के जरिए उसके (भाजपा) दौस्तों के लाखों करोड़ रुपए का कुर्ज माफ किया जाता है लेकिन आम आदमी को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वीचत रखा जाता है।



#### HERO MOTOCORP LIMITED

Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj- Phase-II, New Delhi - 110070. | CIN NO. L35911DL1984PLC017354

| - "  | PARTICULARS   | STANDALORE     |              |                |                         | CONSOLIDATED   |                |                      |                        |  |
|------|---|----------------|--------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|--|
| 3.Ho |   | GUARTER ENDED  |              |                | TEAK ENDED              | GUARTER BADED  |                |                      | TEAH ENDE:             |  |
|      |   | UNAN           | AUNE 24, MOH | MARCH M, SKE   | MAJECH 31, 2022<br>STED | JUNE 10, 2022  | UNE SO, 2021   | WAREH H, HATE<br>ALC | MARSH 31, 2022<br>Vied |  |
| 1    | Yotal income  | 8,445.53       | 5,625.66     | 7,561,49       | 29,802.38               | 8.503.07       | 5,648.20       | 7,627.99             | 30,108.29              |  |
| 2    | Net Profit for the period before tax (before Exceptional items)   | 523.00         | 484.35       | 802.21         | 3,260.13                | 789.02         | 343.25         | 785.73               | 3,058.11               |  |
| 3    | Not Profit for the period before tax (after Exceptional items)  | 823.80         | 484.35       | 802.21         | 3,250.13                | 789.02         | 343.25         | 765.73               | 3,058.11               |  |
| 4    | Not Profit for the period after tax (after Exceptional items)   | 624.52         | 365.44       | 627.05         | 2,473.02                | 565.58         | 256.46         | 620.56               | 2,329.05               |  |
| 5    | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for<br>the period (after too) and other Comprehensive Income (after too) | 623.09         | 359.91       | 638.19         | 2,467.58                | 559,39         | 249.48         | 646.56               | 2,328.45               |  |
| 8    | Equity Share Capital (face value Rs. 24-per share)  | 39,96          | 39,95        | 39.96          | 39.96                   | 39.96          | 39.96          | 39.96                | 39.95                  |  |
| 7    | Reserves (excluding Revaluation Reserve)  | 711593310      | 1600310      | ///            | 15,742.96               |                |                |                      | 15,808,69              |  |
| 8    | Earnings per share on net profit after tax - face value Rs. 24-each (In Rupcos)<br>a) Basic<br>b) Divided                             | 31.25<br>31.25 | 18.29        | 31.38<br>31.37 | 123.78<br>123.74        | 29.55<br>29.54 | 12.82<br>12.82 | 30.50<br>30.58       | 115.96<br>115.93       |  |

New Delhi, Date: August 12, 2022

- 1. The showe is an extract of the detailed format of Financial Results Red with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulations, Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Company's website were heronotocopy com and also on stock exchange websites, www.tseandia.com and www.nseindia.com.
- Based on the guiding principles given in ind AS-108 on Operating Segments', the Company's business activity talls within a single operating segment, namely automative segment. Accordingly,
  the disclosure requirements of Ind AS-108 are not applicable.
- The above results for the quarter ended June 30, 2022 have been re-held on Ausust 12, 2029.

For and on behalf of Board of Direct DR. PAWAN MUNJAL Chairman & CEO DIN: 00004223

थानः नोएडा देनांकः अगस्त 12, 2022

### **GUFLEX** यूफ्लेक्स लिमिटेड

CIN: L74899DL1988PLC032166

305, तृतीय तल, भनोट कॉर्नर, पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश—1 नं ०: 011—26440917, 011—26440925 **फैक्स** : 011—262 वेबसाईट : www.uflexitd.com ई-मेल : secretarial@uflexitd.com

#### कंपनी के शेयरधारकों के ध्यानार्थ सूचना

के पनी के शे. येश्वर होता है के अंतर्ग की 33 ("तेतीसवी") वार्षिक अम बैठक (एजीन वा बैठक) युवार, 14 सितम्बर 2022 को भारतीय समयानुसार दिन के 3.00 वर्ज वीशियों जाहिंद ("तीती") अन्य अव्य-हुच्य माध्यम (ओएतीएन") से तीनी दिनीक एक ब्रीक 2020, 14 विश्वर 2020 को प्रति का उत्तर के 3.00 वर्ज वीशियों जाहिंद ("तीती") अन्य अव्य-हुच्य माध्यम (ओएतीएन") से तीनी दिनीक एक ब्रीक 2020, 15 वर्जिक 2020, 16 मिट वर्ज 2021 को तीत व्याप्त विश्वर देखा अंतर का 14 (2020, 15 प्रति वर्ज 2021) को तीत व्याप्त विश्वर 2021 को तीत व्याप्त विश्वर वर्ज वा अपने 14 (2021) के व्याप्त व्याप्त विश्वर वर्ज 2021 को तीत व्याप्त विश्वर वर्ज 2021 के तात वर्ज 2022 को तीत वर्ज वर्ज विश्वर वर्ज 2021 के तात वर्ज 2022 को तीत्र वर्ज वर्ज 2021 के तात वर्ज 2022 को तीत्र वर्ज वर्ज 2021 के तात वर्ज 2022 को तीत्र वर्ज 2022 को तीत्र वर्ज वर्ज 2023 के तात वर्ज 2022 को तीत्र वर्ज वर्ज 2023 के तात वर्ज 2023 के तीत्र 2023 के तीत्र वर्ज 2023 के तीत्र वर्ज 2023 के तीत्र 2023 के तीत्र वर्ज 2023 के तीत्र वर्ज 2023 के तीत्र वर्ज 2023 के तीत्र 2023 के तीत्र वर्ज

रज़ीएम के नोटिस में वर्णित वसावेज बिना किसी शुरूक के सदस्यों द्वारा निरोधण हेतु इलेक्ट्रॉनिकल रूप में उपलब्ध हैं, जिन नेरीक्षण इस नोटिस के जारी होने की तारीख से एजीएम की तारीख तक किया जा सकता है।

दस्तावेज का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपनी मंशा इस पते पर ईमेल कर सकते हैं :secretarial@uflexitd.com

दस्ताजंक का निर्प्राचन करने के इसकू सदस्य अगनी मात्र इस पा पर इसन कर स्वता हैं :secretaria@ulledul.com एणीएम के दीवान विद्या ई-मोटिंग और ई-मोटिंग के हिए अनुदान : कांद्रिय इसने ये के साथ दिन हों हैं के इसने हमार 2014 की बात के स्वता है के अनुसार को प्राच्या करने कर व्यक्त को साथ (इसे प्राच्या के स्वता है के स्वता के साथ के अनुसार के स्वता के स्वता है के अनुसार के स्वता के स्वता है के अनुसार के साथ का का साथ के साथ का का साथ के साथ के साथ का साथ के साथ का साथ का साथ का साथ का साथ का साथ का साथ के साथ का साथ का

नार ना का पुत्तमा कार उठका एकाएग के दाशन ई-चाहिंग की सुक्षिप्र प्रदान करेगा। एकीएम और वर्ष 2021–22 के लागांश लिए शेवरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए सदस्यों के पेलिस्टर और क्षेत्री की शोवज उत्तरण बहियां, शनिवार, 20 अगस्त, 2022 से बुधवार, 14 सिताबर, 2022 (दीनो तारीखों सहित) की खबींगे में बंद रहेंगी।

- सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
- परस्त्या का गुमता क्या जाता ह कि —

  (ज्योप्पक ने मोटिंग मेनिमीदी अनुसार बैठक का संवासन इतेक्ट्रॉनिक माध्यमां से ब्राटिंग के जरिए किया जा सकता है।

  रिमोर्ट ई—गोटिंग प्रारंभ होने की तारीख और समय रिनेवार, 11 सितम्बर, 2022, पूर्वाइन 9.00 बजे।

  रिमोर्ट ई—गोटिंग प्रारंभ होने की तारीख और समय गोनववार, 13 सितम्बर, 2022, शाम 5 बजे।

  रिमोर्ट ई—गोटिंग समान होने की तारीख जोर समय गोनववार, 13 सितम्बर, 2022, शाम 5 बजे।

  रिमोर्ट इन्वेस्ट्रॉनिक माध्यम के अवधार प्रोरोस्म में देव देने की पाताता गितारिक तमें हे तिह कट—आँक वारीख : बुधवार,

  र सितम्बर, 2022 सदस्यों के योटिंग चाहहान कट—ऑक वारीख यानी बुधवार, 7 सितम्बर, 2022, को जनकी शेयरहोल्डिंग के अनुपात में होंगे।
- यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी के शेयर खरीदे हों और वह एजीएम का नोटिस विस्पैच होने के बाद कंपनी का सदस्य बना ह याद करना ज्याचन ने, रूपना के शवर खबर है। आर के एआएन को गांदिन शवर में हम तो माद केपना का स्वरंपन बना है। तथा कट—<mark>आँक तारीख यानी बुधवार , रिसान्यर, 2022</mark> को वह शेयरचारक हो, तो वह एजीएन के नोटिता में वर्णित प्रक्रिया का पातन करते हुए लींग इन आईडी और पातवर्ड सुचित कर सकता है। यदि ऐसा व्यविश ई-वॉटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहते से पंजीकृत हो, तो वह वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकता है:
- (i) रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा के इस्तेमाल की अनुमति मंगलवार, 13 सितम्बर, 2022, शाम 5 बजे के बाद नहीं दे जाएगी

- जारापी.
  (j) मेटिंग की पृश्चिम एजीएम में उपलब्ध होगी और बैठक में हिस्सा लेगे वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई—चोटिंग के जरिर ग्रीट निया हो, वे बैठक के दौरान गोट जात सकंगा हरोमाल करने के बाद मी कोई सदस्य एजीएम में माग ले सकत (ji) रिमोट ई—वोटिंग के जरिर बोट देने के अधिकार नहीं होगा: और है, पर्सु, बैठक में उन्हें फिर से बोट देने का अधिकार नहीं होगा: और (jv) रिपोट ई—वोटिंग की सुविधा और पार्षिक जाम बैठक में बोट देने की सुविधा कंबल उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसक माम कर—वेंग हारीक माम उस प्रति हारी, शिक्स पर, शिक्स पर, 2022 को सदस्यों के पीजरूर में जाया डिजोजिंग्स होता हुए एसे गए परिस्टर में लावाधी स्वामी के रूप में दर्ज हो।
- ा ए एक्सर-ए न लानाथा त्यान क का न देशा हो। गीतिक रूप में शेयर रखने बाते शेयरात्मक कंपोंनी में धराना ईसेल आईबी घंगीकृत /अपकेंद्र कर सकते हैं। इसके लिए जर्क उपना फोलियो नमर, नाम / फार्म ISA- का जरलेख करते हुए अनुश्चेष पत्र की रखेन की गई प्रति और शेयर मामाप्पन की प्रतिया (सामने और पीध), पैन / आबार की पर—सारवाधिक प्रति सर्वित secretarial@ufleatid.com पर कंपनी को अवधा Beetal@beetailmancial.com पर आरंटीए को हैं—मेर करनी होंगी।
- कपना को अथवा beetalepoetalmnarcial.com पर आरटाए का इन्नान करना होगा। औरन्द रुप में शेंगर करने वाले सरस्य, अपना ईन्मेल आईडी अपकेट करने के लिए कृपया सम्बद्ध विपॉलिटरी या जमाकत प्रतिमागियों से संपर्क करें। कपनी और एजेंसी को वेबसाइट पता, जहां बैठक का जोटिस किस्से किया गया <u>www.uflexitd.com</u> औ